

-:प्रेस नोटदिनांक 11.06.2021:-

थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

थाना फरीदपुर क्षेत्रान्तर्गत घर में चोरी करते समय एक बदमाश मय तमंचा व कारतूस के गिरफ्तार, एक बदमाश मौके से ईको गाडी लेकर फरार, तथा एक बदमाश चोरी करते समय पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर अपने तमंचे से स्वयं अपने को गोली मारकर मरा। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 चले हुये कारतूस बरामद हुये।

यह है कि कस्वा फरीदपुर के लाइनपार मठिया क्षेत्रान्तर्गत बुखारा रोड पर चीता मोबाइल के आरक्षी का0 2974 आशीष मय का0 2776 हरीश कुमार अपनी ड्युटी पर मामू थो समय करीब रात्रि 01.00 बजे रेलवे फाटक के पास संदिग्ध ईको गाडी रजिस्ट्रेशन न0 UP 21 BC 6202 खडी मिली, जिसे चीता मोबाइल द्वारा चैक किया गया तो गाडी के चालक ने बताया कि मैं बरेली से कस्वा फरीदपुर के बुखारा रोड सबारी छोडने आया हूँ और वापस बरेली जाऊंगा। चीता मोबाइल द्वारा गाडी व गाडी चालक का फोटो अपने मोबाइल से लेकर और पूछताछ कर अपने क्षेत्र में गश्त में मौके से चले गये। समय करीब 02.30 बजे के आसपास बुखारा रोड पर सुखपाल पुत्र सत्यवीर शर्मा के घर के पास पहुचें तो रेलवे क्रासिंग के पास मिली ईको गाडी चीता मोबाइल को देखकर मौके से भाग गयी। सुखपाल के घर के गेट के तरफ टार्च की रोशनी डाली तो घर के दरवाजे की कुन्डी के ताले टूटे पडे दिखाये दिये और घर के अन्दर खटपट की आवाज सुनाई पडी। घर के अन्दर चोरो द्वारा चोरी का शक महसूस होने पर चीता मोबाइल कर्मचारियो द्वारा कस्वा क्षेत्र में रात्रि ड्युटी मे लगे अधि0/कर्म0गणो को मोबाइल फोन से सूचित कर मौके पर आने के लिए कहा गया तो कस्वा क्षेत्र में लगे अधि0/कर्म0गण मौके पर पहुचे और घर को चारों तरफ से घेर लिया। सुखपाल के घर के गेट को खोलने का प्रयास किया गया तो घर के गेट के अन्दर की कुन्डी बन्द थी। गेट को बलपूर्वक खोला गया तो घर के अन्दर चोरी कर रहे दो बदमाश घर की छत पर भागे। पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो एक बदमाश सुखपाल के घर की छत से बगल के घर सोनू शर्मा पुत्र सतपाल शर्मा के घर की छत पर कूद गया। दूसरे बदमाश को एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बगल के घर की छत पर कूदे बदमाश की पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आत्मसमर्पण के लिये ललकारा गया तो छत कूदे बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाश की बादस्तूर घेराबंदी रखी गयी और पुनः आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया तो बदमाश ने पुनः फायर किया। काफी देर तक पुलिस द्वारा घेराबंदी रखने के उपरान्त और बदमाश द्वारा कोई चहल पहल न करने पर रात्रि में ही सीडी मंगवाकर सतर्कता पूर्वक छत पर चढकर बदमाश को तलाश किया गया तो छत पर कूदा बदमाश मृत अवस्था में पाया गया। जिसके पास एक अवैध 315 बोर का तमंचा भी मौजूद था। पकडे गये बदमाश से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अभिषेक उर्फ रिन्कू पुत्र श्री ब्रिजेश आयु करीब 29 वर्ष नि0 ग्रा0 चौवारी कैन्ट जिला बरेली बताया। तथा अपने साथी मृतक बदमाश का नाम अजय पुत्र भारत सिंह जाति केठेरिया नि0 ग्रा0 चौबारी थाना कैन्ट जिला बरेली बताया। तथा मौके से ही ईको गाडी में भागे बदमाश का नाम अंचल नि0 ग्रा0 चौबारी थाना कैन्ट जिला बरेली हाल निवासी सुभाषनगर नाले के पास थाना सुभाषनगर जिला बरेली बताया। मौके से टेलीफोन कर फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर आकर आपेक्षित वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने की कार्यवाही की गयी तथा उनके द्वारा मृतक बदमाश की तलाशी ली गयी तो उसकी जेब से एक मोबाइल एक ताला मय चाबी तथा एक छोटा पेंचकश मिला व कुछ रूपये मिले। मृतक बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में हाल का चला एक खोखा फंसा हुआ व एक चला हुआ खोखा भी बरामद हुआ। मृतक बदमाश की मौके पर ही नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना पुलिस टीम द्वारा बदमाशो के विरूद्ध अपेक्षित बैधानिक कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार/फरार/मृतक बदमाशो का विवरण

- 1-अभिषेक उर्फ रिन्कू पुत्र श्री ब्रिजेश आयु करीब 29 वर्ष नि0 ग्रा0 चौवारी कैन्ट जिला बरेली (गिरफ्तार शुदा)
- 2-अजय पुत्र भारत सिंह नि0 केठेरिया ग्रा0 चौबारी थाना कैन्ट जिला बरेली (मृतक)
- 3- अंचल नि0 ग्रा0 चौबारी थाना कैन्ट जिला बरेली हाल निवासी सुभाषनगर नाले के पास थाना सुभाषनगर जिला बरेली (फरार)

बरामदगी का विवरण:-

- 1-दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 2-दो अदद अवैध कारतूस 315 बोर
- 3-ताला तोडने के लिए आला नकब व अन्य घर का ताला तोडने के औजार
- 4-घर से चोरी किया हुआ सामान जैसे टीबी कपडे आदि।

घटनास्थल

लाइनपार मठिया बुखारा रोड कस्वा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली

आपराधिक इतिहास मृतक बदमाश अजय पुत्र भारत सिंह जाति केठेरिया नि0 ग्रा0 चौबारी थाना कैन्ट जिला बरेली

- 1-630/20 धारा 398/401 भादवि थाना कैन्ट जिला बरेली
- 2-639/20 धारा 3/25 A ACT थाना कैन्ट जिला बरेली
- 3-335/19 धारा 395/412 भादवि थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली
- 4-281/21 धारा 457/380 भादवि थाना फरीदपुर जिला बरेली
- 5-282/21 धारा 3/25 A ACT थाना फरीदपुर जिला बरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- | | |
|--|---|
| 1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह पचौरी थाना फरीदपुर जनपद बरेली | 2-उ0नि0 श्री राजकुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली। |
| 3-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली। | 4-उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा थाना फरीदपुर जिला बरेली। |
| 5-हे0का0 834 अर्जुन सिंह थाना फरीदपुर जिला बरेली। | 6-का0 85 शिवकुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली। |
| 7-का0 1543 हिमांशु गुप्ता थाना फरीदपुर जिला बरेली | 8-का0 2974 आशीष थाना फरीदपुर जिला बरेली। |
| 9-का0 2974 आशीष कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली | 10-का0 2778 हरीश कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली। |

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)
प्रभारी निरीक्षक
थाना फरीदपुर, बरेली।